

# यदि आप

# हॉस्पिटैलिटी में काम करते

# हैं तो टैक्स रिटर्न तैयार करते समय आप क्या-क्या क्लेम कर सकते हैं, यह जानना आपके हित में है



**काम से संबंधित किसी खर्च को क्लेम करने के लिए यह आवश्यक है कि:**

- खर्चा आपने स्वयं किया है और आपको किसी व्यक्ति ने वह वापस नहीं किया है
- खर्च का आपकी आय अर्जित करने से सीधा सम्बन्ध है
- आपके पास खर्च का सबूत है।\*

आप किसी भी खर्च का काम से संबंधित हिस्सा ही क्लेम कर सकते हैं। आप किसी खर्च के निजी इस्तेमाल से संबंधित किसी भी भाग के लिए कटौती क्लेम नहीं कर सकते।

\* आप साल भर के लिए ए टी ओ एप्प के myDeductions टूल का इस्तेमाल करके अपने खर्चों और रसीदों की जानकारी रख सकते हैं।

## क्लोदिंग (कपड़ों) और बनने-सँवरने का खर्चा

- ✓ **आप** ऐसी यूनिफॉर्म को खरीदने, किराए पर लेने, उसकी मरम्मत करने और उसे साफ रखने के लिए कटौती का **क्लेम कर सकते हैं** जो अद्वितीय और आपके काम के लिए विशिष्ट है - उदाहरण के तौर पर रसोइए की चूक पतलून या हैट, या क्लोदिंग जो आपकी सुरक्षा के लिए है, जैसे कि एप्रन, और जिसे आपका नियोक्ता आपको पहनने के लिए कहता है।
- ✗ **आप** काम पर पहने जाने वाले आम कपड़ों को खरीदने या उन्हें साफ करने के खर्च के लिए कटौती **क्लेम नहीं कर सकते**, चाहे आपका नियोक्ता आपको उन्हें पहनने का आदेश देता है और आप उन कपड़ों को सिर्फ काम पर ही पहनते हैं (उदाहरण के लिए काली पतलून और सफ़ेद कमीज)।
- ✗ **आप** बालों की देख-रेख, प्रसाधन सामग्री, बालों और त्वचा की देख-रेख के प्रसाधनों के लिए कटौती **क्लेम नहीं कर सकते**, चाहे आपका नियोक्ता आपसे बन-सँवर कर काम पर आने की आशा रखता है। बनने-सँवरने के सभी प्रसाधन निजी खर्च से संबंधित हैं।

## कार सम्बन्धी खर्च

- ✓ **आप** कटौती के लिए **क्लेम कर सकते हैं** यदि आप:
  - एक दिन में नौकरी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं - जैसे कि वेटर की नौकरी से सफ़ाई कर्मचारी की दूसरी नौकरी के लिए यात्रा करना।
  - एक दिन में एक नियोक्ता के लिए नौकरी के एक स्थान से दूसरे स्थान पर गाड़ी चला कर जाते हैं - जैसे कि आप जिस रेस्तराँ में काम करते हैं, वहाँ से यात्रा करके कैटरिंग के लिए दूसरी जगह जाते हैं।
- ✗ **आम तौर पर आप** काम पर जाने की यात्रा की कीमत **क्लेम नहीं कर सकते**, चाहे आप अपने रोजमर्रा के काम के स्थान से बहुत दूर रहते हों या काम के सामान्य समय के बाहर काम करते हों - जैसे कि सरकारी छुट्टी वाले दिन या रात की शिफ्ट में। कुछ सीमित परिस्थितियों में आप घर से काम पर जाने-आने की यात्रा की कीमत क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि जब आप काम के लिए भारी औज़ार या उपकरण लेकर जाते हैं - उदाहरण के तौर पर कैटरिंग के लिए बैन-मारी (bain-marie) लेकर जाना। ऐसी यात्राओं की कीमत की कटौती केवल तब की जा सकती है जब:
  - आपका नियोक्ता आपको वह उपकरण काम के लिए लाने-ले जाने के लिए कहता है
  - उपकरण का इस्तेमाल करना आपकी आय कमाने के लिए आवश्यक है
  - काम के स्थान पर उपकरण को स्टोर करने के लिए कोई सुरक्षित क्षेत्र नहीं है, और
  - उपकरण अत्यधिक भारी है - कम से कम 20 किलो या ले जाने में असुविधाजनक है।

यदि आप कार संबंधी खर्चा क्लेम करते हैं तो आपको एक लॉगबुक रखनी होगी ताकि आप काम के लिए उसके इस्तेमाल के प्रतिशत की गणना कर सकें, या अगर अपने क्लेम के लिए आप सेंट प्रति किलोमीटर का तरीका इस्तेमाल करते हैं तो आपको ए टी ओ को यह दिखाना होगा कि आपकी गणना युक्तिसंगत है।

## औज़ारों और उपकरणों का खर्चा

- ✓ जिन औज़ारों और उपकरणों को आपके लिए काम पर इस्तेमाल करना आवश्यक है, जैसे कि रसोइए की चाकू-छुरियाँ, **आप** उनको खरीदने की कीमत के लिए कटौती का **क्लेम कर सकते हैं**। आप अपने नियोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदान किये गए औज़ारों और उपकरणों या उपकरणों के निजी इस्तेमाल के लिए कटौती क्लेम नहीं कर सकते। यदि कोई औज़ार या उपकरण काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसकी कीमत:
  - \$300 से अधिक है - आपको उसकी कीमत की कटौती कुछ वर्षों के दौरान (डेप्रिसिएशन द्वारा) क्लेम करनी होगी
  - \$300 या इससे कम है - आप उसकी पूरी कीमत की कटौती को एकमुश्त क्लेम कर सकते हैं।
- ✓ **आप** काम के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औज़ारों और उपकरणों की मरम्मत की कीमत के लिए कटौती का **क्लेम कर सकते हैं**। यदि औज़ार या उपकरण निजी कामों के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं तो आप उनकी मरम्मत की कीमत के निजी भाग को क्लेम नहीं कर सकते।

## आपकी पढ़ाई से संबंधित खर्च

- ✓ यदि आपकी पढ़ाई का कोर्स आपके वर्तमान काम से सीधे रूप से संबंधित है, उदाहरण के लिए कॉफी की दुकान के कर्मचारी का बेरिस्टा का कोर्स करना, तो **आप** उस कोर्स के खर्चों के लिए कटौती **क्लेम कर सकते हैं**।
- ✗ यदि आपकी पढ़ाई का कोर्स आपके वर्तमान काम से केवल सामान्य रूप से संबंधित है, या वह आपको नई नौकरी प्राप्त करने में सहायता देने के लिए है तो **आप** उसके लिए कटौती **क्लेम नहीं कर सकते**, उदाहरण के लिए आप फूड डिलीवरी ड्राइवर से रसोइया बनने का कोर्स करने की पढ़ाई का खर्चा क्लेम नहीं कर सकते।

## कटौती के लिए उपयुक्त काम से संबंधित अन्य आम खर्च

- ✓ जिन अन्य खर्चों के लिए आप कटौती क्लेम कर सकते हैं, उनमें शामिल हैं:
  - यदि आपको काम के लिए फ़ोन कॉल करनी पड़ती है या टेक्स्ट मैसेज भेजने पड़ते हैं तो फ़ोन के खर्चों का काम से संबंधित हिस्सा
  - यूनिफ़ॉर्म और प्रोफेशनल एसोसिएशन की फ़ीस
  - तकनीकी या आपके व्यवसाय के पब्लिकेशन
  - आपका कर्मचारी के रूप में काम करने का स्पेशल या गेमिंग का लाइसेंस रिन्यू करने की फ़ीस। आप पहली बार लाइसेंस लेने की फ़ीस क्लेम नहीं कर सकते।



यह पूरी जानकारी का केवल सामान्य सारांश है। अधिक जानकारी के लिए [ato.gov.au/occupations](http://ato.gov.au/occupations) पर जाएँ।



Australian Government  
Australian Taxation Office